



The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

Press Release

रांची

23/10/2020

छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अकादमिक-उद्योग सहयोग की आवश्यकता

इकफ्राई विश्वविद्यालय, झारखंड के कुलपति प्रो ओ आर एस राव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च द्वारा आयोजित झारखंड शैक्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में कुलपति, कुलसचिव और वरिष्ठ शिक्षाविदों ने भाग लिया।

"झारखंड में उच्च शिक्षा के विकास में चुनौतियां" विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, प्रो ओआरएस राव ने कहा, की "उच्च शिक्षा संस्थानों, में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक, विशेष रूप से बीटेक और एमबीए जैसे व्यावसायिक कार्यक्रमों से स्नातक करने वाले छात्र के लोगों के सामने के रोजगार दिलाने की है। प्रो राव ने कहा की "एक मजबूत और निरंतर अकादमिक-उद्योग सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से पाठ्यक्रम के अपडेशन, इंटरनशिप प्रदान करने, कौशल विकास केंद्र आदि स्थापित करने से समस्या को दूर करने में मदद किया जा सकता है ताकि छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार, ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके।

अपने संबोधन के दौरान, प्रो राव इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताया, जिसमें उद्योग के साथ अकादमिक-उद्योग सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, उद्योग के साथ संगोष्ठी / वेबिनार का आयोजन करना, शिक्षाविदों में पूर्व छात्रों की भागीदारी आदि शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से एनएसई अकादमी, एनसीडीईएक्स, बाँश जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक रोजगारपरक बनाने में मदद कर रहे हैं।

=====